

छपरा में फार्च्यून के नाम पर बेच रहे थे नकली रिफाइंड ऑयल, 270 लीटर जब्त

छपरा : बिहार के छपरा में फार्च्यून ब्रांड का नकली माल छपरा के मशरक में तैयार हो रहा है। इस शिकायत पर गुरुवार को मशरक थाना पुलिस के सहयोग से राजापट्टी गोला में छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में नकली खाद्य तेल बरामद किया गया। मामले में कंपनी के प्रतिनिधि विभोर मानक दिल्ली निवासी ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि वे वर्तमान में कंपनी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें सूचना मिली कि राजापट्टी गोला में नकली फार्च्यून ऑयल का नकली उत्पाद बेचा जा रहा है। मशरक थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई तो दुकानदार फरार हो गया।

दुकानदार डुमरसन गांव निवासी नन्दन कुमार पिता नागेन्द्र साह है। दुकान की तलाशी ली गई तो फार्च्यून का रिफाइंड तेल का 15 लीटर का 18 टिन जो 270 लीटर है, जब्त कर लिया गया। मामले में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि ने पुलिस के सहयोग से राजापट्टी गोला में किराने दुकान में छापेमारी की थी, जिसमें नकली फार्च्यून ब्रांड का रिफाइंड तेल बरामद किया गया। मामले में दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/saran/fake-refined-oil-was-being-sold-in-chapra-in-the-name-of-fortune/videoshow/91992396.cms>